

‘मितान योजना’

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा 1 मई, 2022 को छत्तीसगढ़ की नई योजना ‘मितान योजना’ का शुभारंभ किया, जिसके तहत छत्तीसगढ़ के नागरिकों को प्राप्त होने वाली नागरिक सेवाएँ घर तक पहुँचाई जाएंगी।

महत्वपूर्ण सरकारी योजनाओं से लगभग सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में कई प्रश्न पूछे जाते हैं। यहां, हम आपको सबसे महत्वपूर्ण लेख छत्तीसगढ़ की नई योजना ‘मितान योजना’ की महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान कर रहे हैं जिसे आगामी राज्य सेवा परीक्षाओं में पूछा जा सकता है।

छत्तीसगढ़ की नई योजना ‘मितान योजना’ क्या है?

‘मितान योजना’ के माध्यम से छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा सभी सरकारी सेवाओं को नागरिकों के घर तक पहुंचाया जाएगा, ‘मितान योजना’ के माध्यम से नागरिक जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, राशन कार्ड आदि जैसे दस्तावेज घर बैठे प्राप्त कर सकेंगे। ‘मितान योजना’ के माध्यम से नागरिकों को कोई भी दस्तावेज बनवाने के लिए अपने ब्लॉक नगर निगम परिषद, तहसील या अन्य सरकारी कार्यालय में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी क्योंकि ‘मितान योजना’ के माध्यम से छत्तीसगढ़ सरकार उनके घर तक सरकारी योजनाएं पहुंचाएगी। जिसके तहत समय और पैसे दोनों की बचत होगी तथा प्रणाली में पारदर्शिता आएगी। ‘मितान योजना’ के अंतर्गत सरकार द्वारा सहायक मित्रों को तैनात किया जाएगा।

छत्तीसगढ़ की नई योजना ‘मितान योजना’ के प्रमुख बिंदु

- शुरुआत में मितान योजना को पायलट प्रोजेक्ट के तहत 14 नगर निगमों में शुरू किया गया है, शीघ्र ही पूरे प्रदेश में इस योजना का विस्तार किया जाएगा।
- वर्तमान में मितान योजना 14 नगर निगमों में 13 प्रकार की सेवा उपलब्ध होगी और अन्य सेवाएँ भी इस योजना के माध्यम से प्राप्त की जा सकेंगी।
- मितान योजना के तहत लोगों को जन्म प्रमाण-पत्र, विवाह, निवास, आय, मृत्यु प्रमाण-पत्र एवं अन्य सेवाओं की घर पहुँच सुविधा प्राप्त होगी।
- मितान योजना की सारी प्रक्रिया डिजिटल होगी।
- मितान योजना के तहत सेवाओं हेतु लोगों को मितान टोल फ्री नंबर 14545 पर कॉल करना होगा।
- मितान योजना के शुरू होने से सरकारी प्रक्रिया और आसान होगी। सरकारी ऑफिस के चक्कर काटने से मुक्ति मिलेगी।
- मितान योजना के माध्यम से सभी नागरिकों विशेषतः बुजुर्गों, दिव्यांगों एवं निरक्षरों को घर बैठे आसानी से कई प्रकार की सेवाएँ मिल सकेंगी।




मुख्यमंत्री मितान योजना का उद्देश्य

सरकार की मुख्यमंत्री मितान योजना योजना का मुख्य उद्देश्य योजना के तहत लोगों को उनके घरों पर राशन कार्ड और अन्य सेवाओं पर जाति और अधिवास प्रमाण पत्र, सूचना और इसकी प्रमाणित प्रतियां प्राप्त होंगी, लोगों को अपने जिलों में संबंधित ब्लॉक, नगर निगमों, नगर परिषदों, तहसीलों और अन्य सरकारी कार्यालयों का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा जिससे लोगों का काफी समय भी बचेगा क्योंकि अब बह बिना कहीं जाए ही सेवा प्राप्त कर पायेंगे।

छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री मितान योजना का लाभ उठाने के लिए आवश्यक दस्तावेज

- आवेदक छत्तीसगढ़ का स्थाई निवासी होना चाहिए।
- आधार कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- आयु का प्रमाण
- पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ
- मोबाइल नंबर
- ईमेल आईडी आदि



BYJU'S
EXAM PREP

